

COMMONLY USED SENTENCES AT HOSPITAL

Hindi / हिन्दी

English / अंग्रेजी

109. मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी मदद की।	I am grateful that you have helped me.
110. क्या मेरा रिपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है?	Is my report available here?
111. मेरी जेब में रेजिडेंट कार्ड है।	My resident card is in my pocket.
112. क्या यह सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन के लिए है?	Is this only for prescription?
113. मेरे परिवार को कैसे सूचित किया जा सकता है?	How can my family be informed?
114. क्या मेरा रिपोर्ट आपके पास है?	Do you have my report?
115. कृपया मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए।	Please take me to the doctor quickly.
116. मुझे बातचीत के लिए कौनसा समय उपयुक्त होगा?	What time is suitable for a discussion?
117. मेरी दवा का समय हो गया है, क्या मैं ले सकता हूँ?	It's time for my medicine, can I take it?
118. मेरे बच्चे का ख्याल कौन रख रहा है?	Who is taking care of my child?
170. डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ मत कीजिए।	Don't do anything without the doctor's advice.

171. यह दवा लेने के बाद मुझे चक्कर आ रहे हैं।	I am feeling dizzy after taking this medicine.
172. कृपया यहाँ एक नया निर्देशिका बनाएं।	Please create a new prescription here.
173. मुझे ताजगी की आवश्यकता है, क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं?	I need freshness, can you suggest something?
174. इस दवा को लेने के बाद मेरा खासी ठीक नहीं हो रहा है।	My cough is not improving after taking this medicine.
175. मेरी बुखार का उपाय क्या है?	What is the remedy for my fever?
176. क्या यह सब मुझे नयी दवाओं का सेट है?	Is all this a set of new medicines for me?
177. कृपया मुझे एक सुविधा कमरा दिखाएं।	Please show me a facility room.
178. मेरे लिए यह बड़ा परिसर है, मुझे बाहर कैसे जाना है?	It's a big campus for me, how do I get out?
179. क्या मेरी रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है?	Is there any mistake in my report?
180. मुझे यह बताएं कि मैं इस बीमारी से कैसे बच सकता हूँ।	Tell me how I can avoid this illness.
181. कृपया मेरी बीमारी के बारे में सब कुछ स्पष्ट करें।	Please clarify everything about my illness.
182. मेरी रिपोर्ट का नकल बना दो, कृपया।	Make a copy of my report, please.
183. मेरी उम्र में कोई रुकावट तो नहीं है ना?	There are no age restrictions for me, right?

184. मुझे इस स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए?	How should I behave in this situation?
185. क्या डॉक्टर ने और जाँचें प्रारंभ की हैं?	Has the doctor started more examinations?
186. मेरे लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं?	What safety measures are there for me?
187. मेरे परिवार को इसके बारे में कैसे बताया जाए?	How should my family be informed about this?
188. क्या मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ?	Can I go back home now?
189. इस इलाज की लागत कितनी होगी?	What will be the cost of this treatment?
190. मेरी चोट का इलाज कितने समय तक चलेगा?	How long will the treatment of my injury last?
191. क्या मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ रह सकता हूँ?	Can I stay here for the next few days?
192. मेरी सुबह की डाइट में कुछ बदलाव करें।	Make some changes in my morning diet.
193. क्या यह सब कहीं और बनवाया जा सकता है?	Can all this be arranged somewhere else?
194. यहाँ एक नर्स को बुलाइए, मुझे इंजेक्शन लगाना है।	Call a nurse here, I need an injection.

185. मेरा बाल सूज रहा है, क्या यह ठीक हो सकता है?	My leg is swollen, can it be treated?
186. क्या मुझे इससे ज्यादा दवा दी जा सकती है?	Can I be given more medicine than this?
187. मुझे अपने लिए कुछ आरामदायक बना दो।	Make something comfortable for me.
188. मेरी तबियत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता है।	I am very unwell, I need a doctor.
189. क्या मुझे इसके लिए और टेस्ट कराना होगा?	Do I need to undergo more tests for this?
190. इससे मेरी सुरक्षा के लिए कुछ किया जा सकता है?	Can something be done for my safety?
191. मुझे इस चिकित्सा प्रक्रिया से डर लग रहा है।	I am afraid of this medical procedure.
192. कृपया आगे के उपचार के लिए मुझे रेफर करें।	Please refer me for further treatment.
193. मैं इससे ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहा हूँ।	I am feeling more pain than before.
194. मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्या करूँ?	I have pain in my leg, what should I do?
195. क्या यह बिल मुझे इसी समय देना होगा?	Do I have to pay this bill right now?

196. मुझे इससे बहुत अधिक चक्कर आ रहे हैं।	I am feeling too dizzy from this.
197. इस बारे में मेरे परिवार को सूचित करें।	Inform my family about this.
198. मेरे बुखार की दवा की सही मात्रा क्या है?	What is the correct dosage for my fever medicine?
199. कृपया मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड बुलाइए।	Please call a security guard for me.
152. क्या मुझे अपनी चेंस डायग्नोसिस रिपोर्ट मिल सकती है?	Can I get my chest diagnosis report?
153. यह औरत गर्भधारण के लिए दवा ले रही है।	This woman is taking medication for pregnancy.
154. मेरी सिजेरी के लिए कितना समय लगेगा?	How much time will my surgery take?
155. मुझे बुखार है और मेरी गले में खराश है।	I have a fever and a sore throat.
156. यहाँ अपने परिवार से मिल सकता हूँ क्या?	Can I meet my family here?
157. क्या मुझे अपनी रिपोर्ट की कॉपी मिल सकती है?	Can I get a copy of my report?
158. मेरी नौजवान बेटी को डॉक्टर देखना चाहिए।	My young daughter should see the doctor.
159. मुझे दर्द हो रहा है, कृपया तुरंत मदद करें।	I am in pain, please help me immediately.
160. डॉक्टर, मुझे इस दवा की एक और डोज़ चाहिए।	Doctor, I need another dose of this medicine.

161. क्या यह दवा खाली पेट लेनी चाहिए?	Should this medicine be taken on an empty stomach?
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====
=====	=====

